

She is very thin. वह तो बहुत पतली है।

She is as thin as a toothpick. वह टूथपिक की तरह पतली है।

First sentence सुन कर शायद आपसे कोई नाराज़ हो जाएं पर मुझे विश्वास है कि दूसरा sentence सुन कर नहीं। वैसे दोनों का मीनिंग एक ही है कि वह बहुत पतली है बस कहने का तरीका अलग है। यहाँ पर as thin as a toothpick Simile है जो की Figure of speech का एक part है।

इसी तरह से जब आप बोलते हैं

Rishi Kapoor and Irfaan Khan have died.

यहाँ पर died word सुनना अच्छा नहीं लगता। एक अजीब सी feeling आती है। पर अगर आप कहें

Rishi Kapoor and Irfaan Khan have passed away.

मतलब एक ही है दोनों वाक्यों का। बस बोलने का तरीका बदल दिया है। यहाँ पर passed away Euphemism है जो Figure of speech का एक part है।

तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जानने वाले है Figure of speech के बारे में जिससे हम अपनी English को और अच्छा बना सकते हैं।

Figure of Speech को हिंदी में अलंकार कहते हैं। जिस तरह हम अच्छा दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, कभी कभी make up भी करते हैं, उसी तरह अपनी language को decorative, सुन्दर बनाने के लिए हम Figure of Speech का use करते हैं। आप भी वही same sentences को repeat कर के bore हो जाते होंगे। इसलिए अपने language को हमेशा कुछ नया रूप देते रहना चाहिए जिससे यह आपको भी अच्छा लगे और सुनने वाले को भी। पर यह changes positive changes होने चाहिए।

Language में सरलता (simplicity), नवीनता (innovation), माधुर्य (melody) और सौंदर्य (beauty) के लिए Figures of speech का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कर हम अपने विचारों को सरलता से और अधिक प्रभावशाली तरीके से convey कर सकते हैं। एक example देखते हैं -

साधारण वाक्य

He fought bravely. वह बहादुरी से लड़ा।

यह एक simple sentence है जिसमें हम किसी व्यक्ति की बहादुरी की बात कर रहे हैं। हम बता वह बहुत बहादुरी से लड़ा। अब हम इसी sentence को Figure of speech का use कर के भी बोल सकते हैं।

He fought like a lion. वह शेर की तरह लड़ा।

He was the lion of the fight. वह लड़ाई का शेर था।

यहाँ पर हमने उस व्यक्ति की तुलना एक शेर से की है in fact उसके quality से। हमारे कहने का मतलब एक ही है बस कहने का तरीका बदल दिया है। पर इससे sentence ज्यादा प्रभावशाली लगता है।

हम आज कुछ Figure of Speech के बारे में जानते हैं -

(ध्यान दें कि हम कुछ ही Figures of speech को इस lesson में ले रहे हैं जिनका use हम अपने daily conversation में कर सकते हैं और जो common है।)

1) Simile -

इसी हिंदी में उपमा कहा जाता है। जब हम दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिनमें कम से कम एक गुण समान हो तो हम Simile का use करते हैं। समानता दिखाने के लिए हम as, so या like शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये एक तरह से key words भी है जिससे आप exams में easily identify कर सकते हैं।

जैसे आपने बहुत बार कहा होगा कि Manish is as slow as a snail. (मनीष घोंघे (snail) की तरह धीमा है। Snails अपनी धीमी गति के लिए ही जाने जाते हैं। यहाँ पर मैंने Manish की धीमी गति की तुलना snail की गति से की है और इसके लिए मैंने as (key word) का use किया है।

कुछ और examples देखते हैं -

Our soldiers are as brave as lions. हमारे सैनिक शेर के जितने बहादुर हैं।

Her cheeks are red like a rose. उसके गाल गुलाब की तरह लाल हैं।

He is as funny as a monkey. वह बंदर की तरह मजाकिया है।

The water well was as dry as a bone. पानी का कुआँ हड्डी की तरह सूखा था।

He is as cunning as a fox. वह एक लोमड़ी की तरह चालाक है।

सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि यदि तुलना एक ही जाति की दो वस्तुओं में हो तो वो Simile नहीं बल्कि Comparison होगा। जैसे -

She is as beautiful as her sister.

यहाँ पर she और her sister एक ही जाति के हैं इसलिए यह केवल तुलना है, न की Simile. Simile में हमेशा दो अलग अलग जाति के बीच में तुलना की जाती है।

Metaphor

Metaphor को implied simile भी कहा जाता है। इसमें तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना करने वाले शब्द as, so या like का प्रयोग नहीं किया जाता है। Actually metaphor और simile में बहुत समानता है। Metaphor को आप इस तरह समझ सकते हैं -

1) Metaphor एक चीज़ की दूसरे की तरह मानता है।

2) यह दो चीज़ों या व्यक्तियों में समानता बताता है, इसलिए नहीं कि वे एक जैसे हैं बल्कि उनकी कोई एक बात एक जैसी होती है।

3) अगर हम metaphor का literally मतलब शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो वह बहुत ही funny होगा और बहुत strange sound करेगा।

4) इसका अधिकतर use poetry, literature या कभी कभी बोलचाल में भी किया जाता है जैसे -

अगर आप सोचते हैं कि आप एक 1) black sheep है 2) आपके cold feet है तो आप metaphorically सोच रहे हैं। ये दोनों ही metaphors हैं। आप black sheep नहीं है। Black sheep का अर्थ होता है -a member of a family or group regarded as not so respectable or successful as the rest

और cold feet का अर्थ है - loss of nerve or confidence. यहाँ पर language को colorful बनाने के लिए उसमें कुछ abstract concepts डाले हैं।

कुछ और examples देखिए -

Heart of stone

Time is money

The world is a stage

She's a night owl

Simile और Metaphor में अंतर

Simile का use direct comparisons को बताने में किये जाता है। इसमें 'as' और 'like' जैसे शब्दों का use होता है। Simile सीधे सीधे एक चीज़, व्यक्ति, situation को दूसरे से compare करती है। कभी कभी comparison बताने के लिए 'so', 'than' का भी use किया जाता है।

Metaphor भी दो चीज़ों को compare करता है। पर यहाँ simile की तरह direct comparison नहीं होता। यह normally ऐसे चीज़ों को compare करता है जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे Shakespeare का famous quote है -

'All the world's a stage'

यह एक metaphor है। यहाँ पर world और stage को compare किया गया है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर सिर्फ एक बात common है the world is a stage and that people are all players, i.e. actors who are putting on a play.

Personification

जब हम तुलना की बात करते हैं तो एक और figure of speech है Personification. Personification में non-living चीज़ों को इस तरह बताया जाता है जैसे वे जीवित हो।

जैसे -

His car suffered a severe stroke in the middle of the road, and refused to move forward. उनकी कार को सड़क के बीच में एक गंभीर आघात लगा, और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया।

अब अगर इस sentence को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि हम एक car के बारे में बात बात कर रहे हैं। car एक non living thing है तो उसे कैसे stroke आ सकता है और कैसे वह आगे चलने से मना कर सकती है। ये दोनों ही qualities एक living person (जीवित व्यक्ति) के हैं। यहाँ पर हमने एक non living thing में living thing की qualities डाली है। इसलिए कहा जा सकता है कि हमने यहाँ पर Personification का use किया है।

The wind howled in the night. रात में हवा चीखती रही।

अब हवा कैसे चीख सकती है या आवाज़ निकाल सकती है? हवा non living thing है और चीखना एक living thing की quality. पर हमने ये quality wind सन्दर्भ में बोली है और उसे एक living thing की तरह treat किया है। इसलिए यहाँ भी personification का use है।

कुछ और examples देखिए -

My house is a friend who protects me. मेरा घर एक दोस्त है जो मेरी रक्षा करता है।

The approaching car's headlights winked at me. पास आ रही कार की हेडलाइट्स मुझ पर झपकी।

My alarm clock yells at me to get out of bed every morning. मेरी अलार्म घड़ी हर सुबह बिस्तर से बाहर निकलने के लिए मुझ पर चिल्लाती है।

My flowers were begging for water. मेरे फूल पानी के लिए भीख माँग रहे थे।

The moon smiled at the stars in the sky. चाँद आसमान में सितारों को देखकर मुस्कराया।

Time flies when you're having fun. अच्छा समय जल्दी गुजर जाता है।

Alliteration

याद है आप पहले tongue twister खेलते थे। सबसे common थे -

Peter Piper picked a peck of pickled peppers.

She sells seashells on the sea shore.

कच्चा पापड़, पक्का पापड़

यही तो है Alliteration. इस figure of speech में first consonant sound repeat होती है जैसा कि आपने ऊपर के examples में देखा। इसे आप एक stylistic device भी कह सकते हैं जहाँ पर number of words होते हैं और उनका पहला consonant sound repeat होता है। आपने अपने आस पास भी कुछ ऐसे words देखें होंगे जो Alliteration का example है जैसे -

Dunkin' Donuts

PayPal

Coca-Cola

Esp companies ऐसे नाम रखती हैं जो catchy हो और याद रखने में easy हो। तो अगर आप भी अपनी कोई company खोलने वाले हैं तो Alliteration को ज़रूर ध्यान रखिएगा।

कुछ और examples देखिए

Black bug bit a big black bear.

Walter wondered where Winnie was.

Blue baby bonnets bobbed through the bayou.

Nick needed new notebooks.

Fred fried frogs' legs on Friday.

Oxymoron

इस figure of speech में दो विरोधाभासी विचारों (two opposite ideas) को एक साथ जोड़ कर एक नया word बनाया जाता है Normally oxymoron phrase is a combination of an adjective proceeded by a noun with contrasting meanings. जैसे -

cruel kindness - cruel और kindness दोनों ही एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं इनका use एक साथ किया है जो यह बता रहा है कि बहुत ही ज्यादा दयालु है।

सोचिए कितनी बार आपने daily conversation में इन phrases का use किया है -

वह movie Seriously funny थी।

मुझे Original copies ही चाहिए।

ये तो Open secret है कि Ranbir Kapoor और Alia Bhatt एक साथ है।

ये सभी sentences आपने use किये होंगे। पर अभी इन्हें फिर से देखिए कोई Seriously funny कैसे हो सकता है - ये दोनों ही words एक दूसरे के opposite हैं। पर हमने उन्हें मिला कर एक नया effect दिया है कि वह movie सच में मजाकिया है।

There was a **love-hate** relationship between the two neighboring states.

The professor was giving a lecture on **virtual reality**.

Paid volunteers were working for the company.

The channel was repeating the **old news** again and again.

The doctor was **absolutely unsure** of the nature of his illness.

All the politicians **agreed to disagree**.

There was an employee in the office who was **regularly irregular**.

The program was not liked by the people, for a lot of **unpopular celebrities** were invited.

ऊपर दिए गए वाक्यों में सभी bold किए गए words Oxymoron के example हैं।

Paradox

Paradox एक statement होता है जो विरोधाभासी लग सकता है लेकिन सच भी हो सकता है। ये हमारी life में और literature में एक बहुत ही important place रखते हैं। जैसे -

If I know one thing, it's that I know nothing. अगर मुझे एक बात पता है, तो यह है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये दोनों sentences एक दूसरे के opposite हैं पर सच है।

Your enemy's friend is your enemy.

यह sentence भी देखने में oxymoron जैसा ही है जहाँ पर हमने दो opposite words का use किया है पर यह Paradox है और इसमें दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा गया है।

कुछ और examples देखिए -

Truth is honey, which is bitter.

I am nobody.

This is the beginning of the end.

Paradox thought-provoking हो सकते हैं और साथ में एक fun भी जिन्हें consider करने की जरूरत है। आप कह सकते हैं कि Paradox के माध्यम से आप कुछ important बात भी easily कह सकते हैं जैसे -

Here are the rules: Ignore all rules.

The second sentence is false. The first sentence is true.

I only message those who do not message.

Difference Between Oxymoron and Paradox

चूंकि दोनों एक जैसे हैं इनमें confusion होना बहुत common है।

1) Paradox is a statement or a group of statements, oxymoron is a combination of two contradictory terms. जैसे 'freedom is slavery' एक phrase है और Paradox का example है वही 'cold fire' oxymoron example है।

2) Paradox is considered to be an action that is contradictory and oxymoron is a description of a phrase, which is contradictory.

3) Paradox is apparently a true statement leads to a situation that defies intuition.

Euphemism

Euphemism को अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो यह कठोर शब्दों को मधुर भाषा में बोलना। आप इसे कुछ इस तरह समझिए -

अगर आप किसी से पूछते हैं कि

क्या आप गंजे हो रहे हैं? Are you going bald?

उम्मीद है कि उस समय तो आपको answer मिले शायद वह व्यक्ति दुबारा आपसे बात न करे। तो क्या करना चाहिए? इसी बात को दूसरे तरह से पूछें जिससे सुनने वाले को भी बुरा ना लगे। आप पूछ सकते हैं -

Are you going little thin on the top?

little thin on the top - bald कहने तरीका है। इससे आप बात तो वही पूछ रहे हैं बस शब्दों को बदल दिया है जिससे उसकी harshness कम हो गयी है।

कुछ ऐसे Euphemism को जानते हैं जो आप अपने daily conversation में use कर सकते हैं -

Our teacher is in the **family way** (pregnant).

He is a little **tipsy** (drunk).

We do not hire **mentally challenged** (stupid) people.

He is a **special child** (disabled or learning challenged).

He's **big boned**. — He's fat.

She's **between jobs**. — She's unemployed.

She's **getting on**. — She's old.

She's **on the streets**. — She's homeless.

It wasn't **up to scratch**. — It wasn't good enough.

It left **a lot to be desired**. — It was pretty bad and unsatisfying.

That was a **questionable idea**. — There are problems with this idea.

Hyperbole

हज़ारों बार बोला है कि class regularly attend किया करें।

क्या मैंने सच में हज़ार बार बोला है? आप भी अपनी daily conversation में हज़ारों बार ऐसे words का use करते हैं जो actually बढ़ा चढ़ा कर बोली गयी हो। जैसे जब आप अपने किसी दोस्त से बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो आप बोलते हैं -

It's been ages since I last saw you. एक ज़माना हो गया जब मैंने आखिरी बार आपको देखा था। (यह वाक्य का exact meaning है, सिर्फ एक सार बताया गया है।)

यहाँ पर ages एक अतिशयोक्ति (exaggeration) है यानि बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलने का तरीका। यही Hyperbole की definition है। यह अपनी बात पर emphasis (जोर) देने के लिए use होता है जैसे यहाँ पर मैंने wait (इंतज़ार) के बारे में बताने के लिए ages का use किया है।

Hyperbole (हाइपॅर्बॉलि) वास्तविक situation पर जोर देने के लिए एक unreal (अवास्तविक) exaggeration (अतिशयोक्ति) है। यह बातों को strongly कहने या अपनी feelings को strongly व्यक्त करने का एक तरीका है। कुछ examples देखिए

The bag weighed a ton. (बैग का वजन एक टन था।)

I was so hungry; I could eat a horse! मुझे बहुत भूख लगी थी; मैं एक घोड़ा भी खा सकता था!

She's older than the hills. वह पहाड़ियों से भी बड़ी है।

I could sleep for a year; I was so tired. मैं एक साल तक सो सकता था; मैं बहुत थक गया था।

I've told you a million times to help with the housework. मैंने आपको घर के काम में मदद करने के लिए एक लाख बार कहा है।

I am trying to solve a million issues these days. मैं इन दिनों एक लाख मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ।

The weather was so hot that literally everything was on fire. मौसम इतना गर्म था कि सचमुच सब कुछ आग पर था।

Irony

इसे आप हिंदी में व्यंग्य भी कह सकते हैं। Irony वह figure of speech है जहाँ जो कहा गया है वह उसके अर्थ से या जो कहा जा रहा है, उससे बिल्कुल विपरीत हो। (there is a contradiction of expectation between what is said and what is really meant.)जैसे -

The thieves robbed the police station. चोरों ने police station को लूट लिया।

अब इसमें हमने irony का use किया है। अगर वाक्य को देखें तो एक simple सी information है पर इसमें एक कटाक्ष/ व्यंग्य भी है कि चोरों ने पुलिस station को ही लूट लिया। जब वे खुद की सुरक्षा नहीं कर पाएँ तो बाकी लोगों की कैसे करेंगे।

इस तरह से बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हंसी मज़ाक में irony के माध्यम से कह दी जाती हैं। जैसे -

The doctor is as kind hearted as a wolf. डॉक्टर एक भेड़िये के समान दयालु होता है।(पर अभी के समय में covid 19 से लड़ने के लिए सबसे पहले यहीं लोग हैं। जो स्वार्थहीन हो कर लोगों की देखभाल कर रहे हैं।)

His argument was as clear as mud. उनका तर्क कीचड़ की तरह साफ था।

The fear of long words is called "Hippopotomonstrosesquippedalio phobia." लंबे शब्दों के डर को "हिप्पोपोटोमोन्ट्रोसेक्स्डडेलिओ फोबिया" कहा जाता है।

The student was given 'excellent' on getting zero in the exam. परीक्षा में शून्य प्राप्त करने पर छात्र को 'excellent' दिया गया।

Pun

Pun में किसी शब्द का उपयोग इस तरह से किया जाता है कि उसका एक से ज्यादा अर्थ हो सकता है और ऐसा किया जाता है ताकि उसका एक अलग ही असर हो। इसका एक humorous effect होता है। जैसे -

A happy life depends on a liver."

यहाँ पर liver के दो अर्थ हो सकते हैं - कलेजा जो शरीर के अंदर होता है और एक ऐसा person जो रहता है (liver)

Q - What is the difference between a conductor and a teacher?

Answer - The conductor minds the train and a teacher trains the mind.

A boiled egg every morning is hard to beat.

Every calendar's days are numbered.

ये कुछ common figure of speech हैं जिसको आप अपने daily conversation में use कर सकते हैं। In fact आप करते भी होंगे। इससे आप अपनी language को खूबसूरत बना सकते हैं कि सुनने वाला एक बार आपकी बात को ध्यान से सुने।